



January 25, 2021

Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited.
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai 400051
Fax: 022-26598235/36

Listing Compliance Department
BSE Limited.
Phirozee Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

NSE Symbol: VIKASECO

Scrip Code: 530961

Sub: Newspaper publication of Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2020

Dear Sir/Madam,

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisement relating to the publication of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020, as published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers both dated January 25, 2021 in compliance with the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The above information is also available on the Company's website at www.vikasecotech.com.

You are requested to take the information on record and oblige.

Yours Faithfully,

for Vikas Ecotech Limited

Prashant Sajwani
Company Secretary and Compliance Officer

Cairn shareholders ask govt to honour arbitration award

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, January 24

SOME OF CAIRN Energy's marquee shareholders, including BlackRock, MFS, Franklin Templeton and Fidelity, have asked the Indian government to honour an arbitration award and return \$1.2 billion to the British oil firm, sources said.

Cairn, which on this day seven years back was first slapped with a retrospective tax assessment, is three-fourth owned by world's top investors, with \$529-billion MFS Investment Management of the US being its largest investor with 14.02% stake.

New York-based BlackRock is the second-biggest shareholder with 12.19%. Other investors include Fidelity International, Franklin Templeton, Vanguard Group and Aberdeen Standard Investments, according to stock exchange data.

Two sources with knowledge of the development said that the investors have written to the Indian government as well as the governments of their country – the US and the UK – seeking adherence to the award of a tribunal at the Permanent Court of Arbitration in The Hague.

The three-member tribunal, which comprised a judge appointed by India, last month unanimously overturned a ₹10,247-crore retrospective tax



Cairn's international shareholders in the US and the UK have engaged with their govts as well as the Indian authorities seeking resolution of the issue in a timely fashion

demand on the British oil and gas company and asked the government to return value of the shares it sold, dividend it seized and tax refunds it stopped to enforce the tax.

Sources said Cairn is not a single-promoter driven firm but is owned by world's top investors who are now seeking to protect their interest. These investors, they said, have patiently waited for seven years for resolution of the issue and now that an international arbitration award has come, they want it to be honoured and the issue resolved in a time-bound manner.

Cairn's international shareholders, who hold more than

30% of the stock, in the US and the UK have engaged with their governments as well as the Indian authorities seeking resolution of the issue in a timely fashion.

It wasn't immediately known how many of the Cairn's top 20 shareholders, who between them hold 74.94% stake, have written to the US, the UK and the Indian governments.

Cairn refused to comment on the story.

The company had last week said it was engaged with the Indian government on adherence of the arbitration award.

"In December, the tribunal established to rule on Cairn's claim against the Government of India under the UK-India Bilateral Investment Treaty found in Cairn's favour. The tribunal ruled unanimously that India had breached its obligations to Cairn under the Treaty and awarded Cairn damages of \$1.2 billion-plus interest and costs, which are now payable," the company had said.

The tribunal, in a 582-page judgment on December 21, had ordered the return of the value of shares that the I-T department sold as also the dividend it seized and tax refunds it withheld to recover tax demand that was levied following a 2012 amendment to the Income Tax Act that gave authorities powers to seek taxes on past deals.

● **INTERVIEW: MIHIR VORA**, director and CIO, Max Life Insurance

'Expect single-digit returns from large-cap indices over next 5 years'

Mihir Vora, director and chief investment officer at Max Life Insurance, in an interview with FE's Urvashi Valecha talks about the expectations from the Budget and also discusses why he expects smaller companies to outperform. Excerpts:

The rally in the stock markets has become more broad-based. Is this sustainable? Your view.

After a run of over 10 months in large-caps, a catch-up by the mid and small-caps is only to be expected. Smaller companies had underperformed since January 2018. While the last 10-month returns look good, the one-year performance is barely in line with the large-caps, while the three-year performance is considerably behind. Even the 10-year returns are only just about in line compared to large-caps.

Thus, if the growth revival trend continues, we expect smaller companies to outperform. Availability of credit, lower interest costs and improved working-capital cycles will help them. Many consumer and exporting companies are in the mid and small segments which will likely benefit from the 'opening-up' and global growth themes.

Most experts believe that the markets are quoting expensive valuations. What is your take on it? What is your view on the returns that the markets have given in the last 10 years and what kind of returns can we expect in the next five years?

Economic activities are bouncing back better than what was feared a few months ago, led by a strong rural demand base. Globally, led by massive fiscal and monetary measures, developed economies are bouncing



The focus of the Budget is likely to be on infrastructure, Aatmanirbhar Bharat, banking sector and Covid-19-linked spending on the social sector

back fast. As liquidity flows out, emerging markets are seeing an acceleration in equity and debt flows from global investors. For the markets, we start with the global and local tailwinds and positive sentiment. However, valuations are stretched and are at historically high levels with a forward price to earnings ratios at more than 30 times.

For India, the past 10 years returns are about 11% annual. However, earnings growth has hardly been 3% annual. Most of the returns have been due to valuation increases, this is not sustainable, and earnings need to catch up. We expect single-digit returns from the large-cap indices over the next five years. However, the polarisation of returns means that there is more value in the smaller company space and there the returns can be much higher.

While Q3 earnings are expected to be robust, when will they likely reach pre-Covid levels?

The December quarter will see better top line growth. In fact, given the good September and December numbers, we already may see profits at pre-Covid-19 levels in this quarter itself.

With passive investing picking up in India, is it going to be a challenge for you to generate returns?

We are reaching some kind of an inflexion point after five to seven years of polarised returns when the market indices were driven by a few stocks. This has opened up big gaps in valuations not only between large-caps and small-caps but also between the top and bottom quintiles of large caps.

With these kinds of difference in valuations, it actually may be easier to pick stocks if one has a three-year time frame in mind.

What are your expectations from the Budget?

Not much needs to be done on direct and indirect taxes as rates are already reasonable. The scope for reduction is little when there is a general slowdown. Support for domestic manufacturing will be a focus. While the reduced tax rate was the first step, there may be increases in import duties on several items. More sectors and higher outlay for PLI schemes are also likely. Even in defence, there will be more focus on domestic manufacturing.

The focus is likely to be on infrastructure, Aatmanirbhar Bharat, banking sector and Covid-19-linked spending on the social sector like health, housing and education. We also wish for more incentives towards the real estate sector and homeownership. There

need to be clear funds earmarked for PSU bank capitalisation.

Another area where we hope more aggressive reforms to be pushed is in the power sector, especially in power distribution. Given the global Covid-19 linked situation, there is scope to raise the fiscal deficit for a year without hurting the financial markets and rating agencies. Lastly, a moderation in revenue expenditure and acceleration in capital expenditure would be worthwhile to consider.

What sectors are attractive to you at the moment? What is the ideal portfolio that investors should have at present?

The overall themes that we believe currently are global recovery will be faster than Indian recovery due to better financial support and more domestic manufacturing via production-linked incentive schemes, rural consumption being relatively stronger. So, we are positive on exporters like auto-ancillaries, chemicals, pharmaceuticals and the big one – IT which has surprised positively for three quarters. We also believe that private sector banks will grow faster and hence will look to be overweight once we have a better handle on true stress in the books.

Birla Corp reports 82% jump in Q3 net profit

BIRLA CORPORATION, THE MP Birla Group flagship, has reported an 82% year-on-year jump in its consolidated net profit to ₹148.42 crore for the third quarter this fiscal from ₹81.49 crore for the same period last fiscal.

The cement maker's revenue from operations grew 3.6% y-o-y at ₹1,776.62 crore for October-December period last year against ₹1,715.05 crore for the same period previous year. Sales by volume for the quarter rose 3.2% to 3.55 million tons (mt), boosting capacity utilisation to 92% from 88% in the same period last fiscal, the company said.

—FE BUREAU

India sees 19 IPOs worth \$1.84 bn in December quarter: EY report

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, January 24

REFLECTING STRONG MOMENTUM, India witnessed 19 initial public offers (IPO) worth \$1.84 billion in the fourth quarter of 2020 and market sentiment remains positive in what could be a stellar 2021, according to a report.

Leading consultancy EY's India IPO Trends Report: Q4 2020 showed that there were a total of 10 Initial Public Offers (IPOs) in the main market and 9 in the SME (Small and Medium Enterprises) segment during this period. In the latest December quarter, there were 19 IPOs valued at \$1.836 billion and the largest was that of Gland Pharma with an issue size of \$869 million. There were just 11 IPOs in the year-ago period.

India ranks ninth globally in terms

of the number of IPOs in 2020 with 43 IPOs raising \$4.09 billion.

"There is a strong momentum in the IPO markets, and we are seeing an increased interest from companies across sectors looking to raise capital in the near term. Additionally, companies are keenly awaiting guidelines for direct listing in overseas markets. The market sentiment remains positive for what could be a stellar 2021," Sandip Khetan, Partner and National Leader, Financial Accounting Advisory Services (FAAS) at EY India, said.

During the 2020 December quarter, main markets had 10 IPOs compared to 5 in the same period a year ago. Real estate, hospitality and construction and diversified industrial products were the most active sectors (in terms of the number of IPOs) with three IPOs launched in each sector (including main and SME markets),

the report said.

The report said that in 2020, global IPO volumes continued to accelerate, increasing by 19% to 1,363 while proceeds increased 29% year-on-year to a total of \$268 billion.

Last year, IPO activity proved resilient to the impact of the Covid-19 pandemic supported by low interest rates and expansionary monetary policies, it said.

"Despite a challenging year, 2020 activity in the Asia-Pacific region surpassed 2019, increasing 20% (822) by volume and 45% (\$136.2 billion) by proceeds in 2020. In fact, the region saw the highest proceeds since 2010. Industrials led the sectors with 181 IPOs raising \$20.8 billion in proceeds, followed by technology with 180 IPOs and \$38.7 billion in proceeds, and materials, which saw 95 IPOs raising \$7.4 billion," the report said.

NIIF makes equity investment of less than ₹5,000 cr in five years

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, January 24

THE NATIONAL INVESTMENT and Infrastructure Fund (NIIF) in its five years of existence has made an equity investment of less than ₹5,000 crore in infrastructure projects, sources said.

The ₹40,000-crore NIIF was set up in December 2015 as an institution for enhancing infrastructure financing by investing in greenfield (new), brownfield (existing) and stalled projects.

According to sources, NIIF has made an equity investment of ₹4,689 crore, while the co-investment by its partners stood at about ₹7,053 crore at the end of September 2020.

The quasi-sovereign wealth fund's total equity investment along with partners stood at ₹11,742 crore as of September 2020. At the same time, the long-term debt investment was at ₹7,935 crore, taking aggregate investment to the tune of ₹19,677 crore.

Set up as Category II Alternative Investment Fund (AIF), the NIIF currently manages three funds with distinct strategies – Master Fund, Fund of Funds and Strategic Opportunities Fund. NIIF's total assets under management (AUM) is at over \$4.4 billion across the three funds, as per the latest factsheet provided by the NIIF.

As far as the road sector is concerned, NIIF has taken the brownfield route to enter the segment following acquisition of Essel Devanahalli Tollway and Essel Dichpally Tollway last year. The acquisition was done through NIIF Master Fund.

In November 2020, the Union Cabinet approved proposal for an equity infusion of



₹6,000 crore by the government in NIIF Debt Platform sponsored by the National Investment and Infrastructure Fund (NIIF), comprising of Aseem Infrastructure Finance Limited (AIFL) and NIIF Infrastructure Finance (NIIF-IFL).

Of the total amount, only ₹2,000 crore would be allocated during the current year 2020-21, while the remaining amount in the next fiscal.

However, in view of the unprecedented financial situation and availability of limited fiscal space due to the prevailing Covid-19 pandemic, the proposed amount may be disbursed only if there is readiness and demand for debt raising, the official statement had said.

NIIF will take all necessary steps to use the equity investments from domestic and global pension funds and sovereign wealth funds expeditiously.

The proposal to invest ₹6,000 crore as equity into NIIF is part of the Aatmanirbhar Bharat 3.0 package announced by FM Nirmala Sitharaman on November 12, 2020.

The NIIF Strategic Opportunities Fund has set up a debt platform comprising an NBFC Infra Debt Fund and an NBFC Infra Finance Company. NIIF through its Strategic Opportunities Fund owns a majority position in both the companies and has already invested ₹1,899 crore across the platform.

MFs continue to attract investors in 2020, add 72 lakh folios

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, January 24

MUTUAL FUNDS ADDED 72 lakh folios in the pandemic ravaged year 2020 as higher disposable income and low interest on bank deposits attracted investors towards this financial instrument.

In comparison, the industry had seen an addition of 68 lakh investor accounts in 2019, data with Association of Mutual Funds in India (Amfi) showed.

Folios are numbers designated to individual investor accounts. An investor can have multiple folios.

According to the data, the number of folios with 45 fund houses rose to 9.43 crore at the end of December 2020 from 8.71 crore at the end of December 2019, registering a gain of 72 lakh folios. In the year 2020, many investors added to their mutual fund investment during the market correction due to Covid-19 and the recovery phase as well, said Harshad Chetanwala, co-founder MyWealthGrowth.com.

"First time investors chipped in during this period as the markets were looking attractive and existing investors diversified their investments in new schemes as well. Both these actions did result in new folio creation," he added.

According to him, the number would have been higher, but a segment of investors also opted to book profits and shuffle from non-performing funds to better option, which is quite natural.

Harsh Jain, co-founder and COO of Groww, said that digital investment platforms have made the onboarding and account opening seamless, increasing accessibility to mutual funds.

| VIKAS ECOTECH LIMITED | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| CIN: L65999DL1984PLC019465 | | | | | |
| Regd. Office: Vikas Apartments, 34/1, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026, Ph.: 011-43144444 E-mail: cs@vikasecotech.com URL: www.vikasecotech.com | | | | | |
| EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE) For the Third Quarter and Nine Months Ended December 31, 2020 | | | | | |
| Particulars | Three Months Ended | | | Nine Months Ended | |
| | 31.12.2020 (Un-audited) | 30.09.2020 (Un-audited) | 31.12.2019 (Unaudited) | 31.12.2020 (Un-audited) | 31.12.2019 (Unaudited) |
| Total income from operations (net) | 3,238.47 | 4,464.24 | 5,297.74 | 8,464.04 | 16,390.66 |
| Net profit before Exceptional items and tax | 5.99 | 224.17 | 11.49 | (298.60) | 427.49 |
| Net Profit / (Loss) before tax | 5.99 | 224.17 | 11.49 | (298.60) | 1,264.79 |
| Net profit after tax | 1.53 | 184.67 | (156.46) | (342.56) | 781.38 |
| Total Comprehensive Income for the period | 15.06 | 171.75 | (157.26) | (342.44) | 789.09 |
| Equity Share Capital (Rs.) | 27,98,99,675 | 27,98,99,675 | 27,98,99,675 | 27,98,99,675 | 27,98,99,675 |
| Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) - | | | | | |
| 1. Basic: | 0.01 | 0.06 | (0.06) | (0.12) | 0.28 |
| 2. Diluted: | 0.01 | 0.06 | (0.06) | (0.12) | 0.28 |

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results and nine months ended 31st December, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of Quarterly ended Financial Result are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com).
- The above results were reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their meeting held on 23.01.2021. The Audit had been conducted by statutory auditors of the company and they have issued Limited Review Report.

For Vikas Ecotech Limited
sd/-
Vikas Garg
Managing Director
DIN: 00255413

Place: New Delhi
Date: January 23, 2021

| POLY CAB INDIA LIMITED | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Registered Office: Unit 4, Plot Number 105, Halol Vadodara Road, Village Narpura, Taluka Halol, Panchmahal, Gujarat - 389350 | | | | | |
| Corporate Office: Polycab House, 771, Mogul Lane, Mahim (West), Mumbai, Maharashtra - 400016 | | | | | |
| CIN No.: L31300GJ1996PLC114183 Tel.: +91 22 67351400 Website: www.polycab.com E-mail: shares@polycab.com | | | | | |
| Extract of unaudited consolidated financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2020 | | | | | |
| Particulars | Quarter ended | | | Nine months ended | |
| | 31 Dec 20 Unaudited | 30 Sep 20 Unaudited | 31 Dec 19 Unaudited | 31 Dec 20 Unaudited | 31 Dec 19 Unaudited |
| Total Income from Operations | 28,333.00 | 21,464.23 | 25,076.53 | 59,899.46 | 67,469.09 |
| Net profit for the period (before tax and exceptional items) (refer note 3) | 3,541.07 | 2,879.70 | 2,899.71 | 6,714.46 | 7,268.45 |
| Net profit for the period before tax (after exceptional items) (refer note 3) | 3,541.07 | 2,879.70 | 2,899.71 | 6,811.64 | 7,268.45 |
| Net profit for the period after tax (after exceptional items) (refer note 3) | 2,636.17 | 2,215.50 | 2,214.02 | 6,027.22 | 5,504.70 |
| Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)) | 2,566.35 | 2,267.33 | 2,318.03 | 6,230.60 | 5,492.54 |
| Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each) | 1,490.73 | 1,489.78 | 1,488.30 | 1,490.73 | 1,488.30 |
| Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | 36,875.36 | | | | |
| Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) # | | | | | |
| a) Basic | 17.61 | 14.81 | 14.73 | 40.32 | 36.78 |
| b) Diluted | 17.55 | 14.75 | 14.67 | 40.16 | 36.69 |

not annualised for quarters and nine months

Notes:

- The above consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 23 January 2021.
- Additional information of standalone financial results is as follows:

| Particulars | Quarter ended | | | Nine months ended | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 31 Dec 20 Unaudited | 30 Sep 20 Unaudited | 31 Dec 19 Unaudited | 31 Dec 20 Unaudited | 31 Dec 19 Unaudited |
| Total Income from Operations | 27,799.29 | 21,249.90 | 25,040.51 | 59,314.40 | 67,298.98 |
| Net profit for the period before tax | 3,299.77 | 2,758.55 | 2,845.76 | 6,407.74 | 7,164.27 |
| Net profit for the period after tax | 2,441.26 | 2,120.91 | 2,161.61 | 5,684.93 | 5,418.27 |

3) Exceptional item adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS.

4) The above is an extract of the detailed format of quarterly/nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. For full format of the quarterly/nine months financial results, visit Stock Exchanges website (www.bseindia.com), Company website (www.polycab.com) or scan below QR code.

For and on behalf of the Board
sd/-
Inder T. Jaisinghani
Chairman & Managing Director
DIN : 00309108

Place: Mumbai
Date: 23 January 2021

भारत व अन्य देशों में पुराने बांधों से खतरा बढ़ने की आशंका : रपट

न्यूयार्क, 24 जनवरी (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र की रपट के अनुसार भारत में 2025 में एक हजार से अधिक बड़े बांध लगभग 50 वर्ष पुराने हो जाएंगे और दुनिया भर में इस तरह के पुराने बांधों के खतरा बढ़ने का कारण बन सकते हैं। रपट में कहा गया है कि 2050 तक दुनिया की ज्यादातर आबादी 20वीं सदी में बने इन हजारों बांधों के नीचे की ओर बसी होगी और इसके चलते पुराने बांधों से उन्हें गंभीर खतरा होगा।

‘एजिंग वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर : एन इर्माजिंग ग्लोबल रिस्क’ शीर्षक वाली यह रपट संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के कनाडा स्थित जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान ने तैयार की है। रपट में कहा गया है कि दुनिया के कुल 58,700 बड़े बांधों में से ज्यादातर का निर्माण वर्ष 1930 से 1970 के बीच हुआ है। इन्हें 50

- भारत में 2025 में एक हजार से अधिक बड़े बांध लगभग 50 वर्ष पुराने हो जाएंगे
- दुनिया के कुल 58,700 बड़े बांधों में से ज्यादातर का निर्माण वर्ष 1930 से 1970 के बीच हुआ है। इन्हें 50 से 100 वर्ष के लिए बनाया गया था।

से 100 वर्ष के लिए बनाया गया था। इसमें कहा गया है कि कंक्रीट से बना बांध 50 साल के बाद संभवतः पुराना हो जाता है। इसलिए दुनिया के हजारों बांध इस समय खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं, उनकी दीवार टूटने का खतरा पैदा हो गया है। रपट में कहा गया है कि ज्यादा पुराने बांधों के रखरखाव का खर्च बढ़ जाता है और उनकी जल भंडारण क्षमता भी कम हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के विश्लेषण के अनुसार 2050 तक दुनिया की ज्यादातर आबादी इन हजारों बांधों के नीचे की ओर बसी होगी। रपट में यह बात भारत, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान, जाइया और जिम्बाब्वे में बने बांधों का अध्ययन करने के

बाद कही गई है। इसके अनुसार कुल बांधों के 55 फीसद यानी 32,716 बड़े बांध चार एशियाई देशों—चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया में हैं। इनमें से ज्यादातर जल्द ही 50 साल से ज्यादा पुराने हो जाएंगे।

रपट के अनुसार अकेले भारत में ही 1,115 बड़े बांध 2025 में 50 साल या इससे ज्यादा पुराने हो जाएंगे। देश में 4,250 से अधिक बड़े बांध 2050 में 50 वर्ष पुराने हो जाएंगे और 64 बड़े बांध 2050 में 150 वर्ष से अधिक पुराने हो जाएंगे। अगर भारत में केरल के मुल्लापरियार बांध को 100 साल पहले बनाया गया था और अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो लगभग 35 लाख लोग खतरे में हैं।

चीनी सेना का ताइवान पर दबाव क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा : अमेरिका

वाशिंगटन, 24 जनवरी (भाषा)।

अमेरिका ने ताइवान पर चीनी सेना के दबाव को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इस प्रकार की डराने-धमकाने की रणनीति क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने शनिवार को कहा, ‘ताइवान सहित अपने पड़ोसियों को धमकाने के पीआरसी(पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) के प्रयासों को लेकर अमेरिका चिंतित है।’ एक बयान में उन्होंने बेजिंग से अनुरोध किया कि वह ताइवान पर अपने सैन्य, राजनयिक और आर्थिक दबाव को समाप्त करके लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए ताइवान के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक बातचीत करे।

उन्होंने कहा, ‘हिंद प्रशांत क्षेत्र में साइबा समृद्धि, सुरक्षा और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम मित्रों और सहयोगियों के साथ खड़े हैं।’ प्राइस ने कहा कि अमेरिका जलडमरूमध्य पार के मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान को समर्थन देना जारी रखेगा।

समुद्री लुटेरों ने नाविक की हत्या कर 15 का अपहरण किया

अंकारा (तुर्की), 24 जनवरी (एपी)।

समुद्री लुटेरों ने पश्चिमी अफ्रीका के तट पर तुर्की के मालवाहक पोत पर हमला कर एक नाविक की हत्या कर दी है जबकि 15 अन्य का अपहरण कर लिया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

तुर्की के समुद्री निदेशालय ने बताया कि एम/वी मोजार्ट नामक पोत के चालक दल सदस्यों ने शुरुआत में खुद को सुरक्षित स्थान पर बंद कर लिया था लेकिन कुछ घंटे बाद लुटेरों वहां पहुंच गए, इस दौरान हुए संघर्ष में चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई। तुर्की की मीडिया ने मृत चालक दल सदस्य की पहचान अजरबैजान निवासी व पेशे से इंजीनियर फरमान इस्मायिलोव के तौर पर की है जो पोत पर एक मात्र गैर तुर्की सदस्य थे।

तुर्की की सरकारी संवाद एजेंसी अनादोलु के मुताबिक शनिवार को पोत में सवार अधिकतर चालक दल का अपहरण करने के बाद लुटेरों ने तीन नाविकों के साथ पोत को गिनी की खाड़ी में छोड़ दिया गया है। एजेंसी के मुताबिक पोत इस समय गैबोन के बंदरगाह जेंटिल की ओर बढ़ रहा है।

तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने पोत पर बचे बरिष्ठ अधिकारी से दो बार बात की है।’ कार्यालय ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ने अपहृत चालक दल के सदस्यों की सफुशल वापसी का आदेश भी जारी किया है।

लाइबेरिया का ध्वज लगा मोजार्ट नामक पोत नाइजीरिया के लागोस से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन जा रहा था और शनिवार सुबह द्वितीय देश साओ टोमे एंड प्रिंसोप से 185 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में इसका अपहरण किया गया। समुद्री लुटेरों ने पोत की अधिकतर प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया है, केवल नेविगेशन प्रणाली को छोड़ा है ताकि चालक दल के सदस्य बंदरगाह तक पहुंच सकें।



रूस में गिरफ्तारियां
रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की गिरफ्तारी के खिलाफ मार्सको के पुश्किन चौक पर तकरौबन 15 हजार प्रदर्शनकारियों को रोकते पुलिसकर्मी। रूस में 3400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।

अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन के अपने समक्षों से की बातचीत

वाशिंगटन, 24 जनवरी (भाषा)।

अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जापान, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया के अपने समक्षों से बातचीत की।

पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी से बातचीत के दौरान ऑस्टिन ने अमेरिका-जापान गठबंधन के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धताओं को दोहराया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति व सुरक्षा बरकरार रखने के महत्त्व पर जोर दिया। किर्बी ने कहा, ‘ऑस्टिन और किशी ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा मुद्दों के वृद्ध आयात पर चर्चा की और कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बाद भी सहयोगी देशों की तैयारी सुनिश्चित रखने पर विचारों का आदान-प्रदान किया।’

कोरोना को रोकने वाले ‘नेजल स्प्रे’ को अंतिम रूप दिया

लंदन, 24 जनवरी (भाषा)।

ब्रिटेन के बर्मिंघम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दो दिनों तक कोरोना का संक्रमण रोक सकने वाले एक ‘नेजल स्प्रे’ को अंतिम रूप दिया है। इसके कुछ ही महीनों में दवा दुकानों पर उपलब्ध होने की उम्मीद है। रविवार को एक अखबार में यह दावा किया गया।

अध्ययन दल के मुख्य अनुसंधानकर्ता डॉ रिचर्ड मोक्स ने ‘द संडे टेलीग्राफ’ से कहा कि वह सामाजिक दूरी की पाबंदियों से निजात दिलाने और स्कूलों को फिर से खोले जाने में इससे मदद मिलने को लेकर आश्वस्त है। ‘नेजल स्प्रे’ को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है। हालांकि इससे बनाने में जिन रसायनों का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें मेडिकल उपयोग के लिए मंजूरी प्राप्त है और वे मानव द्वारा उपयोग किए जाने के लिए सुरक्षित हैं।

मोक्स ने कहा कि हम गर्मियों के मौसम तक इसके उपलब्ध होने की उम्मीद कर रहे हैं। अध्ययन दल का मानना है कि इस स्प्रे का दिन में चार बार इस्तेमाल करना कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रखेगा और स्कूल जैसे घनी आबादी वाले स्थानों तथा अत्यधिक जोखिम वाले स्थानों पर इसका हर 20 मिनट पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

| FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF ANSH ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | |
|--|--|
| RELEVANT PARTICULARS | |
| 1. Name of the corporate debtor | Ansh Energy Solutions Private Limited |
| 2. Date of incorporation of corporate debtor | 13th Nov 2009 |
| 3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered | RtC-Kangur |
| 4. Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor | U93000UP2009PTC038660 |
| 5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor | C-301, Lohia Nagar, Ghaziabad Ghaziabad UP 201002 IN |
| 6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor | 21.01.2021 (Email received on 22.01.2021 from NCLT Allahabad) |
| 7. Estimated date of closure of insolvency resolution process | 20th July 2021 |
| 8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional | Mr. Vimal Kumar Reg. No. IBBI/IFA-002/IP-NO0995 7/2020-2021/13236 |
| 9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board | V 1104, The Hyde Park Sector-78, Node 201301 Email id: maazvimal1@credmail.com |
| 10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional | G 41, 2nd Floor, Sector-63, Node 201301 Email id: crp.ansh@gmail.com |
| 11. Last date for submission of claims | 4th Feb 2021 |
| 12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional | Not Applicable |
| 13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class) | Not Applicable |
| 14. (a) Interim Forms and (b) Details of authorized representatives are available at: | WebLink: https://ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address: Not Applicable |

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Ansh Energy Solutions Private Limited on 21 Jan 2021. The creditors of Ansh Energy Solutions Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 4th Feb 2021 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. The Admission of class is to be made in accordance with Chapter IV of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulation, 2016. The claims with proof is to be submitted in following forms along with documentary proof in support of claims Form B: Claim by Operational Creditors except workmen & employees Form C: Claim by Financial Creditors Form D: Claim by Financial Creditors in a class Form E: Claim by workmen or an employee Form F: Claim submitted by authorised representative of workmen or an employee Form G: Claim by creditors (other than Financial Creditors and Operational Creditors) Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Vimal Kumar Interim Resolution Professional IBBI/IFA-002/IP-NO0995/2020-2021/13236

कार्यालय निदेशक, नवाब वाजिद अली शाह प्राणिण उद्यान, लखनऊ
पत्र सं. - 619/ निविदा सूचना (20-21)/ लखनऊ, दिनांक 19 जनवरी, 2021

ई-निविदा की आमंत्रण सूचना

नवाब वाजिद अली शाह प्राणिण उद्यान, लखनऊ में भ्रमण करने आने वाले दर्शकों को स्वैच्छिक एवं पापकर्म उपलब्ध करने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता दिनांक 27.01.2021 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 02.02.2021 को सायं 05.00 बजे तक वेबसाइट <http://etenderu.up.nic.in> पर निविदा प्रेषण ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। निविदादाता को ई-निविदा में भाग लेने हेतु ई-निविदा का शुल्क ₹. 11800/- (18 प्रिश्रांत जी.एस.टी. सहित) का डिमांड ड्राफ्ट तथा अरैंस्ट मनी के रूप में ₹. 50,000/- का एफ.डी.आर. जो निदेशक/प्रिन्स आफ वेल्स यूजीविकल गार्डेन ट्रस्ट, लखनऊ के नाम निरूपित हो, के रूप में एक लिफाफे में सील कर दिनांक 03.02.2021 को प्रातः 11- बजे तक निदेशक, नवाब वाजिद अली शाह प्राणिण उद्यान, लखनऊ के कार्यालय में देना अनिवार्य है। निविदा दिनांक 03.02.2021 को अपराह्न 12.00 बजे अपोहोस्तकारी के कार्यालय कक्ष में आनलाइन लिफाफे से खोली जायेगी। किसी एक अथवा समस्त निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार निदेशक, नवाब वाजिद अली शाह प्राणिण उद्यान, लखनऊ को होगा।

हस्ता./-
(आर.के. सिंह)
निदेशक

UPID NO.159301, DATE 23.01.2021
WWW.upgov.nic.in
नवाब वाजिद अली शाह प्राणिण उद्यान, लखनऊ

मूथूट होमफिन् (इण्डिया) लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : 1201 एन, 1202, 12वीं मंजिल, 'ए' बिल्डिंग, लोटेस कॉर्पोरेट पार्क, ऑफ. वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, गौरगाँव (इंस्ट), मुम्बई-400 063

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित प्रतिक्रियित हित अधिनियम की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत।

अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत मुथूट होमफिन् (इण्डिया) लिमिटेड (एमएचआईएल) का अधिकृत प्राधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कर्जदारों ("कथित कर्जदार") से उनके लिए निम्नित सम्बन्ध माँग सूचनाओं, जिन्हें नीचे भी दिया गया है, में उल्लिखित राशि का पुनर्निर्माण करने के लिए कठोर हूय माँग सूचनाएँ निर्गत की हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में एतद्ग्रा एक बार पुनः कथित कर्जदार को इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर कथित कर्जदारों द्वारा अनुसूचित/प्राप्त/प्रदान, यदि कोई हो, के साथ पठित स्था समझौते के तहत नीचे उल्लिखित विधियों से सेव्य भुगतान तथा/अथवा पसुरी की विधि तक कथित माँग सूचनाओं में बर्णित के अनुसार नीचे उल्लिखित राशियों तथा उस पर 2% प्रतिमाह की दर से भावी बचन का पुनर्निर्माण एमएचआईएल को अदा करने के लिए सूचना दी जाती है। स्था के बकाया पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूति के रूप में कथित कर्जदारों द्वारा क्रमशः एमएचआईएल के पास चंस्क आस्तियाँ निम्नलिखित हैं :

| क्र.सं. | कर्जदार (नं./सह-कर्जदार नं.) के नाम/स्था खाता सं./शाखा | कुल बकाया राशि (₹.) | माँग सूचना की तिथि | प्रतिभूत आस्तित्व का विवरण (अथवा सम्पत्ति) |
|---------|--|---|--------------------|--|
| 1 | अश्विनेश कुमार शर्मा/सुधा देवी/ 056-05600204/गाजियाबाद | ₹. 493053/- (रुपये उनचास लाख तीन हजार तिरपन मात्र) | 26-12-2020 | खसरा नं. 32, आदर्श कॉलोनी, ग्राम : डुंडाहाड़, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009 |
| 2 | रोहित कनीन्या/अंकित कनीन्या/सरला देवी/राकेश कनीन्या/058-05500301/नोएडा | ₹. 1781525/- (रुपये सत्रह लाख इक्कीस हजार पाँच सौ पचास मात्र) | 26-12-2020 | खसरा नं. 263 में प्लाट, ग्राम : छपरौला, परगना एवं तहसील : ददरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201001 |
| 3 | विष्णु/ममता राठी/056-05600086/गाजियाबाद | ₹. 963001/- (रुपये नौ लाख तिरपन हजार एक मात्र) | 26-12-2020 | म.नं. 37 वीं, खसरा नं. 152 एवं 162, ग्राम सादोपुर, सूर्य सैनी पंचलेव, एमएच-91, जी.टी. रोड, ददरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 |

यदि कथित कर्जदार उपरोक्त के अनुसार एमएचआईएल को भुगतान करने में असफल रहते हैं तो एमएचआईएल लागतों तथा परिणामों के प्रति कथित कर्जदारों के सम्पूर्ण जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रवर्तन नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिक्रियित आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। अधिनियम के तहत कथित कर्जदारों को एमएचआईएल की लिखित पूर्व अनुमति के बिना विक्रय, पट्टे या अन्य प्रारूप में उपर्युक्त आस्तियों को हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कथित नियमों के प्रावधानों या उसके तहत निम्नित नियमों का उल्लंघन करता है या प्रावधानों के उल्लंघन में सहायता करता है वह अधिनियम के तहत प्रचार्यामित के अनुसार जेल तथा/अथवा जुर्माने का उतरवादी होगा।

स्थान : उत्तर प्रदेश
दिनांक : 25.01.2021

अधिकृत प्राधिकारी
कुंते मुथूट होमफिन् (इण्डिया) लिमिटेड

विकास इकोटेक लिमिटेड

CIN: L65999DL1984PLC019465

पंजी. कार्यालय: विकास हाउस, 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

फोन: 011-43144444 | ई-मेल: cs@vikasecotech.com | यूआएल: www.vikasecotech.com

| विवरण | रु. लाखों में | | |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 31.12.2020 (अनंकेक्षित) | 30.9.2020 (अनंकेक्षित) | 31.12.2019 (अनंकेक्षित) |
| प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध) | 3238.47 | 4464.24 | 5297.74 |
| असाधारण मदों तथा कर से पूर्व शुद्ध लाभ | 5.99 | 224.17 | 11.49 |
| कर से पूर्व शुद्ध लाभ/आय | 5.99 | 224.17 | 11.49 |
| कर से बाद शुद्ध लाभ | 1.53 | 184.67 | (156.56) |
| अवधि के लिये कुल व्यापक आय | 15.06 | 171.75 | (157.26) |
| इन्विस्टेड शंकर पूंजी | 279899675 | 279899675 | 279899675 |

आय प्रति शंकर (रु. 1/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)

1. मूल
2. सरल

दिनांक: 21.12.2020

अधिकृत प्राधिकारी
विकास इकोटेक लिमिटेड के लिए
हस्ता./- विकास गर्ग
प्रबंध निदेशक
DIN: 00255413

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23 जनवरी, 2021